

विद्या -भवन बालिका विद्यापीठ  
लखीसराय

दिनांक --- 23-5-2020

कक्षा --- द्वितीय

विषय --- हिन्दी

विषय शिक्षिका --- निक्की कुमारी

सुप्रभात बच्चों ,

आज हम पढ़ेंगे । "पाठ -2 बीरबल बन गए बच्चा" । बीरबल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। समय-समय पर अपनी बुद्धि के द्वारा बादशाह अकबर की अनेक समस्याएं सुलझाते रहते थे। अपने तर्कों से वे बादशाह अकबर को भी लाजवाब कर देते थे । अकबर की राज- सभा में सबसे तेज और बुद्धिमान बीरबल ही थे । एक नई कहानी अकबर और बीरबल के बारे में जानेंगे ।

पाठ - 2 बीरबल बन गए बच्चा

"बादशाह" अकबर अपने दरबार में बैठे थे । सभी दरबारी आ गए थे ।परंतु बीरबल अभी तक नहीं आए थे, कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की शिकायत करने का अवसर मिल गया ।उनमें से एक दरबारी ने "बादशाह अकबर "के कान में कहा । कि "बादशाह सलामत" बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है, अभी तक नहीं आए हैं ।

ठीक उसी क्षण बीरबल दरबार में आए गए । अकबर ने उनसे देर से आने के कारण पूछा, बीरबल बोले "बादशाह सलामत "में देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ । बच्चे की जिद के कारण देर हो गई । अकबर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, " आप तो बड़ी बड़ी उलझन मिनटों में सुलझा लेते हैं । फिर भी आप बच्चे की जिद के आगे हार गए। हम इस बात को नहीं मानते ।यदि ऐसा है, तो साबित कीजिए।

अपनी बात को सच साबित करने के लिए बीरबल ने कहा कि वे स्वयं बच्चे की तरह जिद करेंगे , और बादशाह अकबर को उनकी जिद पूरी करनी होगी ।

अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए । अब बीरबल बच्चे की तरह रोने लगे। जब अकबर उन्हें मनाने की कोशिश की तो बीरबल गन्ना खाने की जिद करने लगे। अकबर ने सैनिकों को भेजकर गन्ना मंगवा दिया अब बीरबल गन्ने को काटकर खाने की जिद करने लगे ।अकबर ने गन्ने के टुकड़े करवा दिए तो बीरबल फिर से साबुत गन्ना मांगने लगे ।अकबर दुसरा गन्ना माँगाने लगे ,परंतु बीरबल ने पहले वाले गन्ने के टुकड़े को जोड़कर ही साबुत गन्ना बनाने की जिद की । यह तो किसी भी तरह संभव नहीं था ।बीरबल बच्चे की तरह जोर-जोर से रोकर अपनी जिद पूरी करवाने के लिए कहने लगे ।अकबर के पास कोई चारा न था। उन्होंने हार मान ली ।अब बीरबल शांत हो गए ।उन्होंने अपनी बात साबित कर दी थी ।

सीख :- इस हास्य कहानी से हमने सीखा कि बालहठ को पूरा कर पाना, सदैव संभव नहीं होता। बुद्धि और चतुराई से ही अपनी बात को सही साबित किया जा सकता है ।

पाठ - 2 " बीरबल बन गए बच्चा " कहानी से कठिन शब्दों को चुनकर लिखिए ।